



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

8 आश्विन 1935 (श0)  
(सं0 पटना 750) पटना, सोमवार, 30 सितम्बर 2013

---

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना  
18 जुलाई 2013

सं0 723—श्री राम जानकी मंदिर, मसौढ़ी, जिला—पटना पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0 949 है । इस न्यास की सम्पत्तियों की सुरक्षा, सुचारु प्रबंधन तथा सम्यक विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा-32 के अन्तर्गत पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक 713, दिनांक 26/06/2008 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी की अध्यक्षता में एक न्यास समिति 05 वर्षों के लिए गठित की गयी थी । समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया है ।

न्यास समिति के सचिव द्वारा समिति के कार्यकाल में किये गये कार्यों से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन भी पर्षद को प्राप्त हुआ है । अतः इस न्यास समिति का कार्यकाल अगले 05 वर्षों के लिए विस्तारित किया जाता है ।

आदेश से,  
किशोर कुणाल,  
अध्यक्ष ।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 750-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>